

Est

Chapter 10

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

וַיִּשָׂם הַמֶּלֶךְ אֶחָשָׁרֶשׁ (א) אֶת־שָׁרוּשׁ מִן־כּוּשׁ עַל־הָאָרֶץ וְאֵי שָׂרֵי הַיָּם׃
और-लगाया राजा-ने अहश्शरोश अहश्शरोश कः कः भूमि -पर -समुद्र-के
H4428 H0325 H0325 H4522 H0325 H0776 H0339 H3220

महाराजा क्षयर्ष ने लोगों पर कर लगाया। राज्य के सभी लोगों यहाँ तक कि सागर तट के सुदूर नगरों को भी कर चुकाने पड़ते थे।

וְכָל־מְעֹשָׂהוֹ וְכָל־מְעֹשָׂהוֹ וְכָל־מְעֹשָׂהוֹ וְכָל־מְעֹשָׂהוֹ וְכָל־מְעֹשָׂהוֹ
और-सब और-सब और-सब और-सब और-सब
H3605 H4639 H8633 H1369 H6575 H1420 H4782 H1431

וְהַמֶּלֶךְ הַמְּלֹאךְ הַלְלוּאֵלֹהֵי מִצְרָיִם וְהַמֶּלֶךְ הַמְּלֹאךְ הַלְלוּ
राजा-ने राजा-ने क्या नहीं लिखे हैं वे लिखे हैं -में -के इतिहास राजाओं-के मादी और-फ़ारस
H4428 H3808 H1992 H3789 H1697 H3117 H4428 H4074 H6539

राजा क्षयर्ष ने जो महान कार्य अपनी शक्ति और सामर्थ्य से किये थे वे मादै और फारस के राजाओं की इतिहास की पुस्तक में लिखे हैं। उन इतिहास की पुस्तकों में मोर्दकै ने जो कुछ किया था, वह सब कुछ भी लिखा है। राजा ने मोर्दकै को एक महान व्यक्ति बना दिया।

וְכִי־מֵרָחֵק מִצְרָיִם הָיָה הַיְהוּדִי מִשְׁנָה דְּמִלְכָּה לְמַלְכָּה אֶחָשָׁרֶשׁ וְנֹדָד לְיְהוּדִים וְרָצוּי
क्योंकि क्योंकि यही यही दूसरा था दूसरा था राजा-के बाद राजा-के बाद अहश्शरोश और-महान था और-महान था और-प्रशंसित
H4782 H3064 H4932 H4428 H0325 H7521 H3064

וְרָב־לְרֹב אֲחֵיוֹ הָרַשׁ שׁוֹבֵל לְעַמּוֹ וְדַבָּר שְׁלֹמֹם לְכָל־זָרְעוֹ׃
अधिकांश में अधिकांश में अपने भाइयों-के खोजता था खोजता था भलाई अपनी प्रजा-की अपनी प्रजा-की और-बोलता था और-बोलता था शान्ति सब-को अपनी सन्तान
H7230 H0251 H1875 H1696 H7965 H3605 H2233

महाराजा क्षयर्ष के यहाँ यहूदी मोर्दकै महत्व की दृष्टि से दूसरे स्थान पर था। मोर्दकै यहूदियों में अत्यन्त महत्वपूर्ण पुरुष था। तथा उसके साथी यहूदी उसका बहुत आदर करते थे। वे मोर्दकै का आदर इसलिए करते थे कि उसने अपने लोगों के भले के लिए काम किया था। मोर्दकै सभी यहूदियों के कल्याण की बातें किया करता था।